



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1946 (श10)
(सं0 पटना 398) पटना, शुक्रवार, 19 अप्रील 2024

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2024

सं0 सि०वि०नि०(योजना)—10-08/2023/213—राजगीर में वर्तमान में हवाई अड्डा नहीं है। राजगीर में बहुत सारे नये भवन, प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान यथा नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार पुलिस अकादमी, जू सफारी, ऑडिनेंस फैक्ट्री इत्यादि एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराना नालंदा विश्वविद्यालय खण्डहर स्थित है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य, पर्यटन के विकास, अन्तराष्ट्रीय महत्व के बैठक/गोष्ठियाँ, अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु आवश्यक है।

उपर्युक्त के आलोक में राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 398-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>